

अधिसूचना

सहोदय विद्यालय संकुलों का 21 वां एवं 22 वां राष्ट्रीय वार्षिक सम्मलेन, 2014

पेपर/आलेख/व्यक्तित्व अध्ययनों हेतु आमन्त्रण

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को यह घोषणा करते हुए अत्यन्त हर्ष का अनुभव हो रहा है कि अमृतसर में आयोजित 20 वीं राष्ट्रीय वार्षिक सहोदय विद्यालय संकुल सम्मेलन, 2013 के आयोजन के समय उपस्थित प्रधानाध्यापकों की संस्तुति के आधार पर इस वर्ष केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दो राष्ट्रीय वार्षिक सहोदय विद्यालय संकुल सम्मेलनों का आयोजन करने जा रहा है। 21 वां राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन 16-17-18 अक्टूबर, 2014 को कोच्चि सहोदय विद्यालय संकुल के सहयोग से कोच्चि में आयोजित किया जाएगा तथा 22 वां राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन रायपुर सहोदय विद्यालय संकुल के सहयोग से 16,17,18 दिसम्बर, 2014 को रायपुर (छत्तीसगढ़) में आयोजित किया जाएगा।

मुख्य विषय- 'जीवन कौशल शिक्षा'

उप विषय

1. जीवन कौशल आधारित दृष्टिकोण।
2. किशोरावस्था शिक्षा
3. अधिगम के वैकल्पिक मार्ग
4. समस्या समाधान योग्यता
5. आकलन की विविध विधियाँ
6. सह-शैक्षणिक क्षेत्रों का आकलन
7. जीवन कौशल आकलन
8. सम्पूर्ण बौद्धिक चिन्तन

उपरोक्त विषयों/उपविषयों से संबंधित आलेख, व्यक्तित्व तथा सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों पर आधारित अध्ययन सामग्री एक सामान्य स्मारिका में प्रकाशन हेतु आमंत्रित हैं। उपर्युक्त सभी सामग्री A4 आकार में 1.5 पंक्ति अंतराल पर कम्प्यूटर मुद्रित की जानी चाहिए। बोर्ड विद्यालयी शिक्षा से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जुड़े हितधारकों जैसे विद्यालय निदेशकों/शिक्षा विशारदों एवं अन्य शिक्षाविदों को भी इन विषयों पर आलेख एवं व्यक्तित्व अध्ययन प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

प्रस्तुतिकरण के निर्देश

- आलेख के साथ सभी लेखक इस बात का घोषणा पत्र संलग्न करें कि यह प्रस्तुति लेखक की मूल रचना है एवं इसे पहले किसी संस्थान को प्रकाशन के लिए नहीं भेजा गया है।
- आलेख में निम्न बिंदुओं का समावेश हो-
 - शीर्षक
 - लेखक/लेखकों (सहोदय विद्यालय संकुल द्वारा एक संयुक्त आलेख लिखे जाने पर) के नाम
 - पद एवं पता
 - भूमिका अथवा पृष्ठ भूमि

- निष्कर्ष
 - आभार
 - सन्दर्भ (संदर्भों को उत्कीर्ण (सुपर स्क्राइब) भी किया जा सकता है)
 - सारांश (250 शब्दों से अधिक नहीं)
- आलेख/पेपर की शब्द सीमा **2500-3000** शब्दों के मध्य हो।
 - आलेख एकल फाइल में **एम एस वर्ड** प्रारूप में जमा की जानी चाहिए।
 - सभी आलेखों के साथ लेखक का संक्षिप्त जीवन वृतान्त, जो 100 शब्दों से अधिक नहीं हो, संलग्न हो।
 - आलेखों को directoracad.cbse@nic.in पर ईमेल करके जमा किया जा सकता है।
 - कागजी प्रति (हार्डकॉपी) को निम्न पते पर भेजा जा सकता है:

डॉ. साधना पाराशर
निदेशक (शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण एवं नवाचार)
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा सदन, 17 राउज़ एवेन्यू, इन्स्टिट्यूशनल एरिया,
नई दिल्ली-110002

आलेख/व्यक्तिवृत्त अध्ययन एवं सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों की कागजी/मृदु प्रति को 20 सितम्बर, 2014 से पहले भेजा जाना चाहिए। कई सहोदय विद्यालय संकुल एक उपविषय को भी चुन सकते हैं एवं उस विषय पर स्थानीय सर्वोत्तम प्रथाओं/रीतियों को विचारों में इकट्ठा कर उनकी प्रस्तुति के लिए तैयार कर सकते हैं। इस प्रदर्शन प्रपत्र के प्रस्तुतीकरण (Power Point Presentation)की समय सीमा 10 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप श्रीमति रमनदीप कौर, उप निदेशक को फोन नम्बर 011-23232106 पर संपर्क कर सकते हैं अथवा directoracad.cbse@nic.in पर ई-मेल भेज सकते हैं।

भवदीया
हस्ताक्षरित/-
डॉ. साधना पाराशर

प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण एवं नवाचार)